



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ 1935 (श0)
(सं0 पटना 114) पटना, शुक्रवार, 24 जनवरी 2014

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश
5 दिसम्बर 2013

सं0 07/नि.(विधि-05) रा.स.स. (परिसमापन)-02/2013-5661—न्यायालय बिहार सहकारी अधिकरण, पटना के द्वारा विविध वाद संख्या-01/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.11.13/18.11.13 (निर्गत ज्ञापक 22 दिनांक 21.11.13) द्वारा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 की धारा-44(3) के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी के पर्यवेक्षण में बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-7 को परिसमापित एवं विघटित करने का आदेश देते हुए बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45(क) में विहित प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति में परिसमापक नियुक्त करने की कार्यवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।

तदनुसार मैं, हुकुम सिंह मीणा, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45(क) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में डा. एन. सरवन कुमार, जिला पदाधिकारी, पटना को उक्त समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-46, 47 एवं 48 में विहित प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति के परिसमापन की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
हुकुम सिंह मीणा,
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 114-571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>